



केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन  
मुख्यालय कार्यालय, प्रयागराज  
जनसम्पर्क विभाग

संख्या : कोर/जी/पीआर/10/22

दिनांक 20.05.2022

मुख्य संपादक  
प्रयागराज

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन ने मनाया आतंकवाद विरोधी दिवस

भारत में प्रति वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर करना है, आम लोगों की पीड़ा को उजागर करना और यह दिखाना कि आतंकवाद और हिंसा कैसे राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक है।

इसी क्रम में आज दिनांक 20.05.2022 को रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुरूप केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, प्रयागराज में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रातः 11:30 बजे महाप्रबंधक श्री अरुण कुमार, द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्न शपथ दिलायी गई।

“हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठा पूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं।“

महाप्रबंधक महोदय ने इस शपथ के माध्यम से आतंकवाद के प्रति सभी में जागरूकता लाने एवं इसे समूल समाप्त करने के लिए सभी लोगों को अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान जागरूक रहने के साथ-साथ सभी लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सजग रहने हेतु प्रेरित किया और आतंकवाद से लड़ने और इसकी रोकथाम के समुचित प्रयासों की दिशा में सभी लोगों को जागरूक होकर कार्य करने को कहा।

इस अवसर पर मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कोर की सभी परियोजनाओं में परियोजना निदेशकों द्वारा परियोजनाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलायी गई।

(अनूप मिश्र)

कृते मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी  
कोर/प्रयागराज